

# तथ्यपत्र

# सुपर क्या होता है?



## सुपर क्या होता है और कैसे काम करता है?

सुपरएन्यूएशन, या "सुपर" जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, सेवानिवृत्ति के लिए एक प्रकार की बचत की योजना है। ऑस्ट्रेलिया में यदि आप हर महीने टैक्स से पहले \$450 या उससे अधिक कमाते हैं तो आपके नियोक्ता की ज़िम्मेदारी हो सकती है कि वह आपके लिए कुछ पैसा किसी सुपर फंड में डाले। इसे सुपरएन्यूएशन गारन्टी कहते हैं। **यह पैसा आपका है** और इसे सुपर में दिया जाता है जिससे आपके रिटायर होने के बाद के जीवन के लिए बचत करने में मदद दी जा सके। आमतौर पर आप यह पैसा रिटायर होने से पहले नहीं ले सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ वर्ष पहले अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों के लिए सुपर अनिवार्य कर दिया था।

## सुपर फंड आपके पैसे से क्या करता है?

सुपरएन्यूएशन फंड नियोक्ताओं द्वारा किए गए योगदान को लेते हैं, जैसे कि आपका, और आपके लिए उस पैसे का निवेश नक़द, शेयरों व संपत्ति में करते हैं। इसका लक्ष्य है कि लंबे समय में जो नियमित राशि आपका नियोक्ता आपके लिए जमा करता है वह इकट्ठी होकर बड़ी राशि हो जाएगी जिसे आप रिटायर होने पर इस्तमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी घटनाएँ हों जो ट्रस्टी के सीधे नियंत्रण से बाहर हों और आपके निवेश की कीमत गिर सकती है (जैसा कि पूरे विश्व में 2008 में हुआ था)। पर हमारा लक्ष्य होता है कि लंबे समय के दौरान आपके रिटायर होने के बाद की बचत बढ़ती रहे।

आपका सुपर का योगदान AMIST Super में जमा किया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा गोशत उद्योग फंड है, क्योंकि आपने या आपके नियोक्ता ने AMIST Super चुना है।

## अपने सुपर को बढ़ाने के लिए सयुंक्तीकरण (compounding) की शक्ति का उपयोग करें।

**बहुत चतुराई का फ़ैसला जो आप ले सकते हैं वह है कि आप सुपरएन्यूएशन में निवेश बाद में करने की अपेक्षा, अच्छा है जल्दी से जल्दी शुरू करें। इसका कारण? जिससे कि आप अपनी आमदनी में सयुंक्तीकरण का लाभ ले सकें।**

सयुंक्त आमदनी वह होती है जब आमदनी के ऊपर और आमदनी होती है। अर्थात्, आपकी आमदनी न केवल उस पैसे पर होती है जो आप अपने सुपर अकाउंट में जमा करते हैं पर, जैसे-जैसे समय बीतता है, उस आमदनी पर भी जो आमदनी आपकी जमा राशि पर होती है।

और जितने लंबे समय तक आपका निवेश होगा, उतना ही बड़ा सयुंक्तीकरण आमदनी का प्रभाव होगा, इसलिए जितनी जल्दी आप शुरू कर सकेंगे उतना ही लाभ होगा।

## आप अपने सुपर को नियंत्रित कर सकते हैं।

आप अपने सुपर को बिल्कुल आरम्भ के समय से नियंत्रित कर सकते हैं और समय के साथ-साथ बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अतिरिक्त पैसा जमा कराने के कई तरीके हैं और ऐसा करने से अनेकों प्रकार के लाभ हो सकते हैं।

**Solid. Strong. Yours.**

**AMISTSUPER**   
Your industry fund

## अपने सुपर को ठीक-ठाक रखना

### 1 अपने सभी सुपर को एक ही अकाउन्ट में जमा करें

यदि आपके सुपरऐन्यूएशन के कई अकाउन्ट हैं तो हो सकता है कि आप हर अकाउन्ट पर फ़ीस व शुल्क दे कर पैसे गँवा रहे हों। अपने सभी सुपर अकाउन्टों के पैसे को AMIST सुपर में लाने के बाद देखें कि क्या आपके पैसे के नुकसान को रोकने में मदद मिली है।

### 2 अपने सुपर को बड़ा बनाएँ

अपने सुपर में अतिरिक्त पैसा डालने से (जो आपका नियोजित नियमित रूप से डालता है, उससे अधिक) आपके सुपर को बढ़ाने में वास्तव ही मदद मिल सकती है। आप पैसों के ये योगदान कई प्रकार से कर सकते हैं:

- ▼ बैंक में स्वतः पैसा जाना (डाइरेक्ट डेबिट)
- ▼ अपनी आय में से कटवाना
- ▼ BPAY
- ▼ चेक या मनी ऑर्डर

इससे भी अधिक यह है कि हो सकता है कि आप सरकार के सह-योगदान के योग्य हो जाएँ, जिसमें संघीय सरकार आजकल जो भी टैक्स देने के बाद आपका सुपर में जो योगदान होगा उसमें \$500 तक का बराबर का योगदान देगी (हमारी वेबसाइट से तथ्यपत्र डाउनलोड करें या अधिक जानकारी के लिए फ़ोन करें)।

### 3 कुछ सलाह लें

यह जानने के लिए कि आप अपने सुपर को सफल कैसे बना सकते हैं **Money Coach** से **1800 808 614** पर बात करें। यह सब आपकी सदस्यता का हिस्सा है और ये लोग आपको अपनी AMIST सुपर सदस्यता से अधिकतम लाभ लेने के बारे में सहायता करेंगे।

### 4 हमें अपनी टैक्स फ़ाइल संख्या (TFN) दें

यह सुनिश्चित करें कि आपका TFN हमारे पास है।

\* "वैतन" बताता है कि यह आम समय की कमाई होती है, जैसा कि इसे Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992 में परिभाषित किया गया है।

यह तथ्यपत्र Australian Meat Industry Superannuation Pty Ltd ABN 25 002 981 919 as Trustee for the Australian Meat Industry Superannuation Trust ("AMIST" or the "Fund"), Australian Financial Services Licence No. 238829 द्वारा जारी किया गया है। इस तथ्यपत्र में दी गई जानकारी इसे तैयार करने की तिथि पर नवीनतम है। यह नवीन की गई जानकारी AMIST Super की वेबसाइट [www.amist.com.au](http://www.amist.com.au) पर प्रकाशित की जाएगी।

इस तथ्यपत्र में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है। यह आपके विशेष लक्ष्यों, वित्तीय स्थिति या ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देती है। इसमें दी गई जानकारी पर अमल करने से पहले आपको अपने विशेष उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति या ज़रूरतों को देखते हुए इसकी उपयुक्तता पर ध्यान देना चाहिए। न तो ट्रस्टी और न ही AMIST के प्रतिनिधियों के पास निजी वित्तीय सलाह देने का लाइसेंस नहीं है। हम सलाह देते हैं कि कोई वित्तीय फ़ैसला लेने से पहले आप किसी योग्य व स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से बात करें। इस लेख का अनुवाद अंग्रेज़ी के लेख "What is Super" से किया गया है, यदि दोनों लेखों के बीच कोई भी अंतर होगा तो अंग्रेज़ी के लेख को सही माना जाएगा।

AMIST Super Hotline **1800 808 614**